

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

70 63] नई दिल्ली, सोनवार, फरवरी 28, 1977 फाल्गुन 9, 1898

N 63] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1977/PHALGUNA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

ORDER

New Delhi, the 28th February 1977

G.S.R. 94(E)—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the Orders specified in the Schedule annexed hereto shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the 1st of March, 1977

THE SCHEDULE

- 1 High Speed Diesel and Light Diesel Oil (Restriction on Use) Order, 1974
- 2 Kerosene (Restriction on Use) Order, 1966
- 3 Liquefied Petroleum Gas (Restriction on Use) Order, 1974.
- 4 Petroleum Products (Collection of Information) Order, 1966
- 5 Petroleum Products (Regulation of Supply to Retail Outlets) Order, 1974.
- 6 Petroleum Products (Supply and Distribution) Order, 1972.

[No F. IS-11013/15/73 Mkt.]

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 94 झ.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट आदेश का विस्तार और प्रवर्तन 1 मार्च, 1977 से सिक्किम राज्य में होगा।

अनुसूची

1. हाई स्पीड डीजल तेल और लाइट डीजल तेल (उपयोग पर निबन्धन) आदेश 1974।
2. केरोसीन (उपयोग पर निबन्धन) आदेश, 1966
3. इवित पेट्रोलियम गैस (उपयोग पर निबन्धन) आदेश, 1974
4. पेट्रोलियम उत्पाद (सूचना संग्रहण) आदेश, 1966
5. पेट्रोलियम उत्पाद (फुटकर विक्रय केन्द्रों को प्रदाय का विनियमन) आदेश 1975
6. पेट्रोलियम उत्पाद (प्रदाय और वितरण) आदेश, 1972।

[स० फा० आई एस 11013/15/75-मार्केट

सी० वेक्टरमणि, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977